



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 1981/वैशाख 4, 1903

No. 160]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 1981/VAISAKHA 4, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

कृषि मंत्रालय

(बाहुय विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1981

सं. क्र. नि. 308 (अ)/आ. वस्तु/चीनी.—केन्द्रीय  
सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त  
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेश देती है कि खंडसारी (खुला  
कड़ाह चीनी) का प्रत्येक उत्पादक—

- (1) 30 अप्रैल, 1981 के खंडसारी के अपने आरम्भिक स्टॉक  
की 5 मई, 1981 को या उससे पूर्व और उसके पश्चात्  
31 अगस्त, 1981 तक प्रत्येक मास में उत्पादित मात्रा  
की घोषणा प्रत्येक उत्तरवर्ती मास की 5 तारीख के पूर्व  
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को करेगा।
- (2) उपखण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार घोषित 30 अप्रैल,  
1981 के अपने स्टॉक और 30 अप्रैल, 1981 के पश्चात्  
31 अगस्त, 1981 तक उत्पादित स्टॉक का 30 सितंबर,

1981 तक निम्नलिखित रीति में विक्रय और प्रेषण  
करेगा अर्थात् :—

- (1) मई, 1981 के दौरान 1 मई, 1981 के आरम्भिक  
स्टॉक के 20 प्रतिशत से अन्यून ;
  - (2) जून, 1981 के दौरान 1 जून, 1981 के आरम्भिक  
स्टॉक के 25 प्रतिशत से अन्यून ;
  - (3) जुलाई, 1981 के दौरान 1 जुलाई, 1981 के  
आरम्भिक स्टॉक के 30 प्रतिशत से अन्यून ;
  - (4) अगस्त, 1981 के दौरान 1 अगस्त, 1981 के  
आरम्भिक स्टॉक के 35 प्रतिशत से अन्यून ; और
  - (5) सितम्बर, 1981 के दौरान 1 सितम्बर, 1981 के  
आरम्भिक स्टॉक ;
- (3) प्रत्येक मास के स्टॉक, उत्पादन, विक्रय और प्रेषणों की  
विशिष्टियां अधिक से अधिक आगामी मास के सातवें  
दिन तक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को देगा :
- परन्तु उपखण्ड (2) और (3) की कोई भी बात किसी उत्पादक  
द्वारा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को

राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन द्वारा इस निमित्त जारी किए गए किसी आवेदक के अधीन उद्ग्रहण के रूप में परिदान करने के लिए अपेक्षित खांडसारी के स्टॉक को लागू नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण**—इस आवेदक के प्रयोजन के लिए, 'विनिर्दिष्ट प्राधिकारी' से उस जिले का जिसमें उत्पादक का खांडसारी एकक स्थित है, कलक्टर या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।

2. यह आवेदक तुरन्त प्रवृत्त होगा।

[सं. 9-15/81 एस. पी. वाई (डी)-II]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव (बीनी)

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

#### ORDER

New Delhi, the 24th April, 1981

**G.S.R. 308(E)/Ess. Com/Sugar.**—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that every producer of khandsari (open pan sugar) shall—

- (1) declare his opening stocks of khandsari, as on the 30th April, 1981 on or before the 5th May, 1981 and also the quantity produced in each month thereafter till the 31st August, 1981 before the 5th of every succeeding month, to the specified authority;
- (2) sell and despatch the stocks as on the 30th April, 1981, declared in accordance with the provisions of sub-clause (1) together with those produced after the

30th April, 1981, and upto 31st August, 1981, latest by the 30th September, 1981, in the following manner, namely :—

- (i) Not less than 20 per cent of the opening stocks as on the 1st May, 1981 during the month of May, 1981;
  - (ii) Not less than 25 per cent of the opening stocks as on the 1st June, 1981 during the month of June, 1981;
  - (iii) Not less than 30 per cent of the opening stocks as on the 1st July, 1981 during the month of July, 1981;
  - (iv) Not less than 35 per cent of the opening stocks as on the 1st August, 1981 during the month of August 1981; and
  - (v) The opening stocks as on the 1st September, 1981, during the month of September, 1981;
- (3) furnish particulars of stocks, production, sales and despatches of khandsari for each month latest by the 7th day of the following month to the specified authority :

Provided that nothing in sub-clauses (2) and (3) shall apply to the stocks of khandsari required to be delivered by a producer to the State Government or the Union Territory Administration, as levy under any order issued by the State Government or the Union Territory Administration, in this behalf.

**Explanation :** For the purpose of this Order, "special authority" means the Collector of the District in which the producers' khandsari unit is located or such authority as the State Government or the Union Territory Administration may specify in this behalf.

2. This Order shall come into force at once.

[No. 9-15/81-SPY(D-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy. (Sugar)